

**महात्मा गाँधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय एवं संबद्ध चिकित्सालय,**

**स्वशासी संस्था, इन्दौर**

क्रमांक /16892 / छात्र./स्था/2019

इन्दौर, दि. 16/10/19

//नोटिस//

स्वशासी महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, इन्दौर में सीनियर रेसीडेन्ट (SR) के निम्नांकित रिक्त पदों पर सीमित पदावधि (Tenure) से पदों की पूर्ति हेतु निर्धारित प्रारूप में वॉक-इन-इंटरव्यू हेतु आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।

**सीनियर रेसीडेन्ट (निश्चित वेतन रु.65,000/- प्रतिमाह)**

DEPARTMENT	TOTAL POST	UR	ST	SC	OBC
ANAESTHESIA	2	0	1	1	0
RADIODIAGNOSIS	2	0	0	0	2
MICROBIOLOGY	1	0	0	1	0
T.B.& CHEST	1	1	0	0	0
ORTHOPEDICS	2	1	1	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>08</b>	<b>02</b>	<b>02</b>	<b>02</b>	<b>02</b>

दिनांक 18.10.2019 को स्कूटनी समय प्रातः 10:00 बजे से 01:00 बजे तक तथा दिनांक 19.10.19 को साक्षात्कार का समय 11:30 बजे रहेगा।

नोट:- इच्छुक अभ्यर्थी आवेदन पत्र कार्यालय की वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं तथा पूर्ण रूप से भरे आवेदन पत्र के साथ मूल दस्तावेजों की अभिप्रमाणित छायाप्रति, 01 फोटो एवं निर्धारित शुल्क का ड्राफ्ट संलग्न करें। आवेदन पत्र दिनांक 18.10.19 को प्रातः 10:00 बजे से 01:00 बजे तक कार्यालय के फार्माकोलॉजी विभाग की लेब में पूर्ण रूप से भरे आवेदन पत्र एवं मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित रहें।

साक्षात्कार हेतु दिनांक 19.10.19 को प्रातः 11:30 बजे आवश्यक अभिलेखों/प्रमाण पत्रों की मूल प्रति तथा अभिप्रमाणित छायाप्रतियों के साथ उपस्थित होना अनिवार्य होगा। इस हेतु पृथक से कोई सूचना नहीं दी जावेगी।

मध्यप्रदेश शासन के नवीनतम आदेश क्रमांक के प्रावधान अनुसार सभी स्नातकोत्तर छात्र जिनका चयन सीनियर रेसीडेन्ट के पद पर होगा उन्हें ग्रामीण सेवा के बांड से इस शर्त के साथ मुक्त किया जाएगा कि वे बांड अवधि के समाप्ति तक महाविद्यालय में इस पद पर सेवाएँ देंगे। उक्त अवधि के पूर्व सेवा छोड़ने की स्थिति से ग्रामीण/अधिसूचित क्षेत्रों में सेवा हेतु किये गये बाण्ड की शर्तें लागू हो जाएगीं और उन्हें निर्धारित अवधि तक ग्रामीण सेवा करनी होगी।

-Sdv  
अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी  
म.गॉ.स्म.चिकित्सा महाविद्यालय एवं संबद्ध चिकित्सालय  
स्वशासी संस्था, इन्दौर

**वॉक-इन-इंटरव्यू हेतु नियम एवं शर्तें।**

- आरक्षण शासन द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार।
- पदों की रिक्तियों की संख्या में कमी या वृद्धि हो सकती है। रिक्तियों की कैटेगिरी में परिवर्तन किया जा सकता है।
- उक्त रिक्त पदों में महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत पद प्रत्येक श्रेणी में आरक्षित है तथा 3 प्रतिशत पद विकलांगों के लिए आरक्षित है।
- सीनियर रेसीडेन्ट हेतु अगर आरक्षित वर्ग के चिकित्सक नहीं मिलते हैं तो उस स्थिति में सीटें अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनारक्षित श्रेणी के क्रम से उपलब्ध कर चिकित्सकों से भरी जावेगी।
- आवेदन पत्र प्रस्तुत करने से अभ्यर्थी साक्षात्कार का पात्र नहीं हो जाता।
- अवधि : सीनियर रेसीडेन्ट्स की सेवा-अवधि (Tenure) तीन वर्ष की होगी। इनकी प्रथम: 01 वर्ष हेतु नियुक्ति की जावेगी। तत्पश्चात् सेवायें संतोषजनक पाये जाने पर 01-01 वर्ष हेतु समय बढ़ाते हुए अधिकतम 3 वर्ष तक बढ़ाई जावेगी।
- नियुक्ति का तरीका : योग्य अभ्यर्थियों का चयन एम.बी.बी.एस./एम.डी./एम.एस./डीएनबी सभी प्रोपेसर्स/यूनिवर्सिटी परीक्षाओं के अंकों, अनुभव, अतिरिक्त योग्यता एवं साक्षात्कार उपरांत किया जावेगा। नियुक्ति समिति की अनुशंसा पर नियुक्तिकर्ता अधिकारी द्वारा की जावेगी।
- आवेदन शुल्क : सीनियर रेसीडेन्ट्स/ जूनियर रेसीडेन्ट के पद हेतु अभ्यर्थियों को अपने आवेदन के साथ रु. 600/- (छः सौ) एवं आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को रु. 300/- (तीन सौ)। राशि का बैंक ड्राफ्ट अधिष्ठाता, म.गॉ.चिकित्सा महाविद्यालय, इन्दौर के नाम देय होना चाहिये। बैंक ड्राफ्ट के पीछे अभ्यर्थी को पूरा नाम, विषय, पता एवं फोन नं. लिखना आवश्यक है। किसी भी अवस्था में राशि लौटायी नहीं जावेगी।

निरन्तर.....2.....

- शैक्षणिक योग्यता:-**
9. संबंधित विषय में एम.सी.आई द्वारा मान्यता प्राप्त एम.डी./एम.एस./ डीएनबी । सीनियर रेसीडेन्ट पद पर किसी चिकित्सक को निजी प्रेक्टिस की पात्रता नहीं होगी। जिन चिकित्सकों ने नोटिस निकलने के दिन पिछले पाँच वर्ष के अन्दर एम.डी./एम.एस./ डीएनबी परीक्षा उत्तीर्ण की है। वे ही इस पद के लिये पात्र जिन चिकित्सकों ने इसी चिकित्सा महाविद्यालय से एम.डी./एम.एस./परीक्षा उत्तीर्ण की है, उन्हें प्राथमिक जाएगी। उसके बाद मध्यप्रदेश के किसी भी चिकित्सा महाविद्यालय से उत्तीर्ण चिकित्सकों को प्राथमिक जाएगी। संस्था द्वारा कदाचार के कारण पूर्व में सेवा समाप्त उम्मीदवार को आवेदन करने की पात्रता नहीं होगी।
- दिनांक 14.06.19 के विडियो कांफ्रेस एवं तत्पश्चात आयुक्त चिकित्सा शिक्षा के पत्र क्रं 140/एम.एस.कक्ष/आचिशि/2019 भोपाल दिनांक 21 जून 2019 के निर्देशानुसार जो अभ्यर्थी मई जून 2019 में एम.डी./एम.एस. की परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं वे भी प्रावधिक रूप से सीनियर रेसीडेन्ट के पद के लिए साक्षात्कार हेतु पात्र किन्तु ऐसे अभ्यर्थियों का यदि चयन होता है तो नियुक्ति पत्र तभी प्रदान किया जावेगा जब उम्मीदवार द्वारा एम.डी./एम.एस. उत्तीर्ण प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जावेगा । एम.डी./एम.एस. परीक्षा में अनुत्तीर्ण अभ्यर्थियों का चयन निरस्त माना जावेगा। ऐसे उम्मीदवार को इस आशय का शपथ पत्र आवेदन के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
10. यात्रा भत्ता :- साक्षात्कार के लिये किसी भी अभ्यर्थी को यात्रा भत्ता नहीं दिया जावेगा।
11. आयु सीमा:- साक्षात्कार के लिये किसी भी अभ्यर्थी की अधिकतम आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिये

**अन्य शर्तें :**

- इन चिकित्सकों का प्रत्येक 01 वर्ष में 12 दिवस के आकरिमक अवकाश की पात्रता होगी तथा सप्ताह में एक अवकाश की पात्रता होगी यह अवकाश संचित नहीं किया जा सकेगा, पर इन रेसीडेन्ट्स से संबंधित, सभी बाधा अधिष्ठाता का निर्णय अंतिम होगा।
- आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को तत्संबंध का प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में सक्षम अधिकारी म.प्र. द्वारा प्रदत्त सत्यापित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
- म.प्र. के मूल निवासी को ही आरक्षण का लाभ दिया जावेगा।
- उम्मीदवार को शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्रों की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगी।
- सेवा की अन्य शर्तें नियुक्ति पत्र में दर्शाये अनुसार बंधनकारी होगी।
- आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के साथ ही जिस संस्था में कार्यरत है उस संस्था का अनापत्ति/त्यागपत्र स्वीकृति पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- उम्मीदवार को म.प्र. राज्य मेडिकल कौंसिल अथवा मेडिकल कौंसिल ऑफ इंडिया से पंजीयन कराना अनिवार्य
- सीनियर रेसीडेन्ट के पद पर चयनित उम्मीदवार को आवश्यकतानुसार अन्य स्थान / सी.एम.ओ. ड्यूटी पर कार्य करने हेतु आदेशित किया जा सकता है।
- यदि किसी अर्थी के दस्तावेज असत्य पाए जाते हैं अथवा यदि कोई चयनित उम्मीदवार बिना सूचना के अनुपस्थित पाया जाता है तो उसे सेवा से पृथक करने का अधिकार अधिष्ठाता के पास रहेगा।

साक्षात्कार के समय उपरोक्त समस्त प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियाँ प्रस्तुत करनी होगी।

-Sd/-  
अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी  
म.गॉ.स्मू.चिकित्सा महाविद्यालय एवं संबद्ध चिकित्सालय  
स्वशासी संस्था, इन्दौर

क्रमांक / / छात्र. / स्था / 2019  
प्रतिलिपि:-

- आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा, म.प्र. भोपाल की ओर म.प्र. शासन के आदेश क्रं. एफ-4-7/2010/1/55 दि 25.01.10 एवं एफ-1-03/2017/55-2 भोपाल दिनांक 04.04.2017 एवं 1274-79/स्था/राज/2019 भोपाल दिनांक 04.04.2019 के परिपालन में।
- अधिष्ठाता: मेडिकल कॉलेज, भोपाल / जबलपुर / ग्वालियर एवं रीवा की ओर भेजकर निवेदन है कि कार्यालयीन नोटिस बोर्ड पर उक्त नोटिस चस्पा करने का कष्ट करे।
- समस्त विभागाध्यक्ष, को सूचनार्थ तथा अपने विभागीय नोटिस बोर्ड पर तत्काल चस्पा करने हेतु।
- समस्त नोटिस बोर्ड चिकित्सा महाविद्यालय/म.य.चिकित्सालय/छात्रावास/लायब्रेरी।

-Sd/-  
अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी  
म.गॉ.स्मू.चिकित्सा महाविद्यालय एवं संबद्ध चिकित्सालय  
स्वशासी संस्था, इन्दौर

प्रति,

अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी  
म.गॉ.स्म.चिकित्सा महाविद्यालय एवं संबद्ध चिकित्सालय  
स्वशास्त्री संस्था, इन्दौर

दिनांक :

सीनियर रेसीडेन्ट के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन-पत्र

आवेदित पद:..... विभाग:.....

Attested

नोट: सभी जानकारी आवेदक द्वारा पूर्ण की जावे।

1. बैंक ड्राफ्ट - क्रं .....  
दिनांक ..... राशि .....  
बैंक का नाम - .....
2. आवेदक का नाम .....
3. पुरुष/महिला.....
4. पिता/पति का नाम (उपनाम सहित).....
5. वर्तमान निवास स्थान का पता (पिनकोड सहित).....  
.....  
शहर का नाम..... फोन नं.....  
मोबाइल नं.....
6. स्थाई पता.....  
.....  
शहर का नाम..... फोन नं.....  
मोबाइल नं.....
7. जन्मतिथि (हाईस्कूल परीक्षा की अंकसूची संलग्न करें).....
8. आज दिनांक को आवेदक की आयु .....दिन ..... नाह ..... वर्ष
9. वर्ग : सामान्य / अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछडा वर्ग / विकलांग ..... (आरक्षित श्रेणी हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र की छायाप्रति संलग्न करें ) .
10. मेडिकल काउन्सिल का पंजीयन क्रमांक एवं नाम तथा दिनांक ..... (एम.बी. बी.एस. / एम.डी. / एम.एस.)
11. इंटरनशीप पूर्णता की दिनांक: .....
12. एम.डी./एम.एस./एम.डी.एस. उत्तीर्ण करने का दिनांक: .....
13. शैक्षणिक योग्यताएँ:- (प्रमाण-पत्र एवं अंकसूची की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें)

क्र	परीक्षा का नाम	संस्था/बोर्ड / वि वि	वर्ष	विषय	प्राप्तांक / पूर्णांक	एम.बी.डी.एस. के कुल प्राप्तांक/प्रतिशत	प्रवास (Attempt)
1	2	3	4	5	6	7	
1.	MBBS First Prof.						
2.	MBBS Second Prof.						
3.	MBBS Final Part I						
4.	MBBS Final Part II						
5.	MD/MS/Diploma						

(प्रत्येक वर्ष का पृथक-पृथक भरे)

नोट: प्रत्येक परीक्षा के प्रयास (Attempt) प्रमाण पत्र अधिष्ठाता द्वारा प्रदत्त हो संलग्न करें।

14. संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची -----

स्थान.....

आवेदक का पूरा नाम एवं हस्ताक्षर

दिनांक.....

// प्रमाण-पत्र //

मैं प्रमाणित करता / करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी पूर्णत सत्य है।  
जानकारी असत्य होने की दशा में मेरा आवेदन पत्र / नियुक्ति पत्र निरस्त किया जा सकेगा।  
मुझ पर म. प्र. शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग स्वशास्त्री समिति म.गॉ.स्म.चिकित्सा महाविद्यालय  
इंदौर के नियम एवं प्रावधान पूर्ण रूपेण बंधनकारक होंगे।

आवेदक का पूरा नाम एवं हस्ताक्षर

CHECK LIST FOR POST OF \_\_\_\_\_

Subject

Name of candidate

Category

Age

List of documents to be checked:

1. Date of Birth (High School Marksheet)
2. MBBS mark sheet, - Marks obtained Attempts  
I Prof  
II Prof  
Pre-final  
Final  
Total %
3. MBBS Degree
4. M.D.  
Attempts if any
5. M.D. / M.S. Degree / Diploma
6. Extra qualifications
7. Post P.G. Teaching Experience
8. Publications in indexed journals Nos.
9. Caste Certificate
10. Domicile Certificate (M.P.)
11. M.B.B.S. Registration No. (State) (State Council)
12. M.D. Registration No. (State) (State Council)
13. Employer's NOC.

Declaration: I hereby declare that I am working / Not working in any Govt. / Semi Govt. Institution at present.

Remark

(Name & Signature of Candidate)

## UNDERTAKING *SO*

I Dr. \_\_\_\_\_ hereby declare that I have cleared my M.B.B.S. examination in following attempts: First Prof \_\_\_\_\_ Second Prof \_\_\_\_\_ Final Prof \_\_\_\_\_ Part-I) \_\_\_\_\_ Final Prof (Part II) \_\_\_\_\_ & MD / MS examination in \_\_\_\_\_ attempt.

### In case the candidate is not registered with Medical Council (M.P. / MCI)

I will submit my Medical Council Registration it at the time of joining.

All the information given by me is true & correct and if any information is found to be incorrect or if I could not submit my registration certificate, my selection for the post of Resident can be cancelled.

Name & Signature of the Candidate